

B.Sc. IN BIOCHEMISTRY (HONOURS)
(BSCBCH)

Term-End Examination

June, 2022

**BBCCT-111 : MEMBRANE BIOLOGY AND
BIOENERGETICS**

Time : 3 hours

Maximum Marks : 70

Note : Question No. 1 is **compulsory**. Attempt any **five** questions from questions no. 2 to 8.

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Define in 1 – 2 sentences : | $5 \times 2 = 10$ |
| (a) Membrane Micro-domain | |
| (b) Bio-energetics | |
| (c) Detergent | |
| (d) Thermogenesis | |
| (e) Light Harvesting Complex | |
| 2. (a) How does facilitated diffusion differ from active transport ? | 6 |
| (b) How does cholesterol affect membrane permeability ? | 6 |

3. Explain the functioning of $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ pump. 12

4. (a) What is lipid raft ? What is its significance ? 8

(b) Name any four inhibitors of electron transport chain and mention their site of action. 4

5. (a) Draw a well-labelled diagram of chloroplast and explain its structure. 6

(b) List the contribution of any three scientists in photosynthetic research. 6

6. Describe ligand-gated ion-channels. 12

OR

Describe the process of receptor-mediated endocytosis. 12

7. Differentiate between any **two** of the following : $2 \times 6 = 12$

(a) Rotational and Lateral Diffusion

(b) Channel and Pore

(c) Extrinsic and Intrinsic Proteins

8. Write short notes on any ***two*** of the
following : $2 \times 6 = 12$

- (a) Liposomes
 - (b) TNBS Labelling
 - (c) Cholesterol
-

जैव-रसायन में बी.एस सी. (आँनर्स)

(बी.एस.सी.बी.सी.एच.)

सत्रांत परीक्षा

जून, 2022

बी.बी.सी.सी.टी.-111 : कला जीवविज्ञान और जैव-और्जिकी

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 70

नोट: प्रश्न सं. 1 अनिवार्य है / प्रश्न सं. 2 से 8 में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. 1 – 2 वाक्यों में परिभाषित कीजिए : $5 \times 2 = 10$

- (क) कला सूक्ष्म-प्रक्षेत्र
- (ख) जैव-और्जिकी
- (ग) अपमार्जक
- (घ) तापजनन
- (ङ) प्रकाश संग्रहण संकुल

2. (क) सुगम विसरण किस प्रकार सक्रिय अभिगमन से भिन्न है ?

6

- (ख) कोलेस्ट्रॉल किस प्रकार कला पारगम्यता को प्रभावित करता है ?

6

3. $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ पंप की कार्यपद्धति की व्याख्या कीजिए। 12

4. (क) लिपिड राफ्ट क्या होते हैं ? इसकी महत्ता/सार्थकता क्या है ? 8

(ख) इलेक्ट्रॉन अभिगमन शृंखला के किन्हीं चार संदमकों के नाम लिखिए और उनकी कार्य स्थली बताइए। 4

5. (क) हरितलवक का सुनामांकित आरेख बनाइए और इसकी संरचना की व्याख्या कीजिए। 6

(ख) प्रकाश-संश्लेषी शोध के क्षेत्र में किन्हीं तीन वैज्ञानिकों के योगदान की सूची बनाइए। 6

6. लिगन्ड द्वारित आयन-चैनलों का वर्णन कीजिए। 12

अथवा

ग्राही-मध्यस्थ अंतःकोशिकता की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 12

7. निम्नलिखित में से किन्हीं दो के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए : $2 \times 6 = 12$

(क) घूर्णन और पार्श्व विसरण

(ख) चैनल और रंध्र

(ग) बाह्य एवं आंतरिक प्रोटीन

8. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ
लिखिए : $2 \times 6 = 12$

- (क) वसाकाय
 - (ख) TNBS चिह्नन
 - (ग) कोलेस्ट्रॉल
-